



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 852]

नई दिल्ली, बुधस्पतिवार, सितम्बर 26, 2002/आश्विन 4, 1924

No. 852]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2002/ASVINA 4, 1924

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2002

का.आ. 1043(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम १९८६ (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम ५ के उप नियम (३) के खण्ड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ (१९८६ का २९) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ की उप धारा (१) और उप धारा (२) के खंड (vi) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० ६० (अ), तारीख २७ जनवरी, १९९४ द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जब तक पर्यावरण संबंधी अनापत्ति न दे दी गई हो तब तक का०आ० ८० (अ) तारीख २८ जनवरी १९९३ के रूप में यथा प्रकाशित अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार भारत के किसी भाग में किसी क्रियाकलाप या किसी परियोजना के विस्तार या आधुनिकीकरण या आरम्भ किए जाने के संबंध में कतिपय निर्बंधन और प्रतिषेध अधिरोपित किए थे,

और, तुरन्त विनिश्चय करने तथा पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए उक्त अधिसूचना में कतिपय संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० १००९ (अ), तारीख १८ सितम्बर, २००२ द्वारा प्रकाशित किए गए थे;

और अनवधानता से अधिसूचना सं० का०आ० १००९ (अ), तारीख १८ सितम्बर, २००२ में कुछ त्रुटियाँ पाई गई, जिन पर केन्द्रीय सरकार ने विचार किया कि उनमें लोक हित में सुधार किया जाना चाहिए और उस अधिसूचना में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में सुनिवारित राय है,

अतः अब, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित प्रारूप संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ (१९८६ का २९) की धारा ३ की उपधारा (२) के खंड vi के साथ पठित उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना सं० का०आ० १००९ (अ), तारीख १८ सितम्बर, २००२ को उन बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, १९८६ के नियम ५ के उपनियम (३) की अपेक्षानुसार जिन्हें ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है ; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप संशोधनों पर, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियाँ, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

कोई व्यक्ति उक्त प्रारूप संशोधन के संबंध में, कोई आक्षेप और सुझाव देने की वांछा रखता है, तो, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उन्हें लिखित में केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, लोधी रोड़, नई दिल्ली-११० ००३ को भेज सकेगा ।

संशोधन प्रारूप

उक्त अधिसूचना में;

(1) पैरा २ के उपपैरा १ की मद (क) में :-

(क) उपमद (vi) के पूर्व आने वाले 'और' शब्द का लोप किया जायगा;

(ख) उपमद (vi) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(vi) सबसे नजदीकी आबादी वाले गांव की सीमा, चारागाह और कच्छ वनस्पति, मेंग्रोव (१००० वर्ग मीटर के न्यूनतम क्षेत्र के साथ) जैसेयों पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों, कोरल, प्रवाल भित्तियों राष्ट्रीय उद्यानों, मैरीन उद्यानों, अभयारण्यों, आरक्षित वनों, मत्स्य प्रजनन और अंड जनन स्थलों और अन्य समुद्री जीवन की सीमा से १० किलोमीटर से अधिक के तट से दूर खोज संबंधी क्रियाकलाप”

(ii) उप पैरा 11 में, मद (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(च) हरित क्षेत्र हवाई पत्तन, पेट्रो-रसायन कम्प्लैक्स और शोधनशालाएं और मेगा तापीय विद्युत संयंत्र”

(iii) अनुसूची 1 में,-

(क) मद ४ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“४ कच्चे तेल और उत्पाद पाइप लाइनों सहित पेट्रोलियम शोधनशालाएं, एकाकी पेट्रोलियम उत्पाद भंडारण केन्द्र”

(ख) मद ६ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“६ कीटनाशी (तकनीकी) और मध्यवर्ती”

(ग) मद ८ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“८ प्रपंज औषधि और मध्यवर्ती वस्तुओं सहित फर्मास्यूटिकल्स ”

(घ) मद २६ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“२६ रंजक और रंजक मध्यवर्ती ”

२. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[सं. जेड-12013/4/89-आई ए आई(पार्ट)]

डॉ. बी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

प्रद्विष्टिपणः मूल अधिसूचना सं० का० आ० ६० (अ), २७ जनवरी, १९९४ द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा० का० ३५६ (अ) तारीख ४ मई, १९९४ सा० का० ३१८ (अ) तारीख १० अप्रैल, १९९७ का०आ० ७३ (अ) तारीख २७ जनवरी २००० का०आ० ७३७ (अ) तारीख ११ अक्टूबर २००१ का० आ० ११४८ (अ) तारीख २१/११/२००१ का० आ० ६३२ (अ) तारीख १ मई, २००२ और का०आ० १००९ (अ) तारीख १८ सितम्बर २००२ •

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2002

S.O. 1043(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 60 (E), dated the 27th January, 1994 (hereinafter referred to as the said notification) issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, (hereinafter referred to as the said rules), the Central Government imposed certain restrictions and prohibitions on the expansion or modernization of any activity or new projects being undertaken in any part of India unless environmental clearance has been accorded by the Central Government or the State Government in accordance with the procedure specified in the notification published as S.O. 80 (E) dated the 28th January, 1993;

And whereas, in order to expedite the decision making and as a further step to streamline the environmental clearance procedure, certain amendments were proposed to the said notification which were brought out vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.1009 (E) dated the 18th September 2002;

And whereas, inadvertently some mistakes have crept in the notification number S.O. 1009 (E) dated the 18th September 2002 which the Central Government consider that the same should be rectified in the interest of the public and to have a better considered opinion on the amendments proposed in that notification;

Now, therefore, the following draft amendments to the said notification which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in supersession of the notification number S.O. 1009 (E) dated the 18th September, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby published as required by sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft amendments will be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public;

Any person desirous of making any objections or suggestions in respect of the said draft amendments may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Aryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110 003.

DRAFT AMENDMENTS

In the said notification, -

1. (i) in paragraph 2, - in sub-paragraph I, in item (a),-

(a) the word “and” occurring before sub-item (v) shall be omitted;

(b) after sub-item (v), the following shall be inserted, namely:-

“(vi) offshore exploration activities beyond 10 kms. from the nearest habitated village boundary, *gaothans* and ecologically sensitive areas; such as, mangroves (with a minimum area of 1000 sq.m.), corals, coral reefs, national parks, marine parks, sanctuaries, reserved forests and breeding and spawning grounds of fish and other marine life”

(ii) in sub-paragraph II, after item (e), the following shall be inserted, namely : -

“(f) greenfield airports, petrochemical complexes and refineries and mega thermal power plants”;

(iii) in Schedule I, -

(a) for item 4 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“4 Petroleum refineries including crude and product pipelines; isolated petroleum product storages”;

(b) for item 6 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“6 Pesticides (technical) and Intermediates”;

(c) for item 8 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“8 Bulk drugs and Pharmaceuticals including Intermediates”;

(d) for item 26 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“26 Dyes and Dye Intermediates”;

2. This notification shall come into force with effect from the date of its final publication in the Official Gazette.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 60 (E) dated the 27th January, 1994 and subsequently amended vide number S.O. 356 (E) dated the 4th May, 1994, S.O. 318 (E) dated the 10th April, 1997, S.O. 73(E) dated the 27th January, 2000, S.O. 1119 (E) dated the 13th December, 2000, S.O. 737 (E) dated the 1st August, 2001, S.O. 1148 (E) dated 21st November, 2001, S.O.632(E) dated 13th June, 2002 and S.O. 1009 (E) dated 18th September 2002.

